



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1605]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2011/श्रावण 28, 1933

No. 1605]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2011/SRAVANA 28, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2011

का.आ. 1923(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2083(अ), तारीख 26 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को पूर्व मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 73.000 कि.मी. से 98.350 कि.मी. (डानकुनी-खरगपुर सेक्शन) तक के खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 15 नवम्बर, 2010 को "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" और "आनन्द बाजार पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिये;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगणों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 73.00 कि.मि. से 98.350 कि.मि. तक (डानकुनि - खडगपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

पी- भाग
एफ- पूर्ण

क्रम संख्या 1	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / दाग संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूर्व मिदनापुर	1. कोलाघाट	(1) उत्तर जियादा जे.एल.नं. 236	आर.एस. 1436 पी	निजी	अकृषिक	0.0121	हरिकिञ्ज सामंता पिता सतीष निज व अन्य
				आर.एस. 1437 पी	निजी	अकृषिक	0.0121	कमलेन्दु सामंता पिता श्रीपाती निज व अन्य
				आर.एस. 1571 पी	निजी	अकृषिक	0.0040	ओसाम अली, पिता अब्दुल गफफार, सिद्दा व अन्य
				आर.एस. 1572 पी	निजी	कृषिक	0.0222	मोसमात कुलषाम बीबी, पत्नी बासेद अली, पारित व अन्य
				आर.एस. 1574 पी	निजी	अकृषिक	0.0121	कमलेन्दु सामंता पिता श्रीपाती निज व अन्य
				आर.एस. 1584 / 2032 पी	निजी	कृषिक	0.0143	कमलेन्दु सामंता पिता श्रीपाती निज व अन्य
			(2) बाबूआ जे.एल.नं. 290	आर.एस. 64 पी	निजी	कृषिक	0.0486	कमला बाला दोलई, पत्नी विजय कृष्णा, निज व अन्य
				आर.एस. 65 पी	निजी	कृषिक	0.0486	नारायण दोलई पिता कोची कोला व अन्य
				आर.एस. 135 पी	निजी	कृषिक	0.1052	पंचानन मैती पिता बलकुन्था निज व अन्य
				आर.एस. 140 पी	निजी	कृषिक	0.0040	नारायण दोलई पिता कोची कोला व अन्य
				आर.एस. 144 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.3399	पी डब्लू डी
				आर.एस. 141 / 351 पी	निजी	कृषिक	0.0850	कृष्णचन्द पॉल पिता नितई निज व अन्य
				आर.एस. 141 / 352 पी	निजी	कृषिक	0.0364	शाहद डुईया पिता मंसूर निज
			(3) पदमपुर जे.एल.नं. 233	आर.एस. 13 पी	निजी	कृषिक	0.0162	बालई चन्द मन्ना पिता इन्दरनारायण अमीरचक व अन्य
				आर.एस. 14 पी	निजी	कृषिक	0.0324	राषबिहारी धारा पिता अमर निज व अन्य
			(4) बारदाबार जे.एल.नं. 298	आर.एस. 334 पी	निजी	कृषिक	0.0263	देवाधीष गनतैत पिता राघानाथ बरादा ननकर व अन्य
				आर.एस. 278 पी	निजी	कृषिक	0.0061	हरि सेनापति पिता रषिक, निज
				आर.एस. 336 / 953 पी	निजी	कृषिक	0.0142	हरि सेनापति पिता रषिक, निज
				आर.एस. 336 पी	निजी	कृषिक	0.0162	गणेश चन्द मन्ना पिता नाबाकुमार, निज व अन्य
				आर.एस. 339 / 956 पी	निजी	अकृषिक	0.0182	सुसान्ता मैती पिता ताराकिनकर, निज व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस. 339 पी	निजी	अकृषिक	0.0405	सुसान्ता मैती पिता तारकिनकर, निज व अन्य
				आर.एस. 342पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0101	आई और डब्लू विभाग
				आर.एस. 343 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0101	आई और डब्लू विभाग
				आर.एस. 344 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	आई और डब्लू विभाग
				आर.एस. 370 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0040	आई और डब्लू विभाग
				आर.एस. 341 पी	निजी	अकृषिक	0.0020	मानिक लाल धोरई पिता मोतीलाल, निज व अन्य
		(5) पायरित जे.एल.नं. 299		आर.एस. 755 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.7021	आई और डब्लू विभाग निज
				आर.एस. 748 पी	निजी	अकृषिक	0.0688	उदय चन्द कौरी पिता नेताई , निज व अन्य
				आर.एस. 737 पी	निजी	अकृषिक	0.0060	गौरहरी कौरी पिता हरिपादा, निज व अन्य
				आर.एस. 739 पी	निजी	अकृषिक	0.0081	चरण घोष, पिता रजनी चाखरी व अन्य
				आर.एस. 732 पी	निजी	अकृषिक	0.0101	फकीर गौण, पिता सन्यासी हातीपोता व अन्य
				आर.एस. 722 पी	निजी	कृषिक	0.0060	श्रीमती रेनुका प्रमाणिक पत्नी श्वानीषकर, पुलसीता
				आर.एस. 723 पी	निजी	कृषिक	0.0060	सुधीर चन्द गौण, पिता कृतिदाष निज
				आर.एस. 731 पी	निजी	कृषिक	0.0081	श्वानीषकर प्रमानिक पिता खितिष चन्द, पुलसीता
				आर.एस. 748/1247 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0101	प.ब.सरकार
		(6) सिधा जे.एल.नं. 227		एल.आर. 1623 पी	निजी	अकृषिक	0.0061	शेख आमिरउद्दीन पिता केलीमुद्दीन, निज व अन्य
				एल.आर. 1621 पी	निजी	कृषिक	0.0020	सिधा जामा मस्जिद परिचालन कमिटी सिधा
		(7) मिहितिकरी जे.एल.नं. 300		आर.एस. 315/1498 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0850	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 314 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0405	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 313 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0121	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 312 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0121	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 311 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.2145	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 310 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0162	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 309 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0243	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 308 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0283	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 307 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 306 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 305 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	डब्लू और बी विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस. 304 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0121	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 303 एफ	निजी	अकृषिक	0.0162	संतोष दुलाल चन्द मैती पिता साथ निज व अन्य
				आर.एस. 302 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 301 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 300 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0121	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 299 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0121	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 298 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0121	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 297 एफ	निजी	अकृषिक	0.0081	सैयद एबार अली पिता मजहर, बारपैयरित व अन्य
				आर.एस. 297/1806 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.00400	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 297/1807 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 329 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.2914	आई और बी विभाग
				आर.एस. 289 पी	निजी	कृषिक	0.0688	शानुनु मैती पिता दुलाल चन्द देउलिया व अन्य
				आर.एस. 291 पी	निजी	अकृषिक	0.0445	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 279 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0162	प.ब.सरकार
				आर.एस. 278 पी	निजी	अकृषिक	0.0567	सत्याजीत कन्दार पिता शबातरण पुलसीता और अन्य
				आर.एस. 277 पी	निजी	कृषिक	0.0081	मुकतार अली मोल्ला पिता सोदार अली मोल्ला देउलिया व अन्य
				आर.एस. 274 पी	निजी	कृषिक	0.0587	देवनाथ बाग पिता आधार निज
				आर.एस. 273 पी	निजी	कृषिक	0.0567	मुरारी मोहन मैती पिता इषण व अन्य निज
				आर.एस. 272 पी	निजी	कृषिक	0.0243	अचुतानन्द जना पिता चारु निज व अन्य
				आर.एस. 271 एफ	निजी	कृषिक	0.0101	रानुका बाला मथुरा पत्नी विजय व अन्य निज
				आर.एस. 269 पी	निजी	अकृषिक	0.0243	आरती नायक पत्नी जयदेव निज व अन्य
				आर.एस. 258 पी	निजी	अकृषिक	0.0243	जिला बोर्ड, पूर्व मिदनापुर
				आर.एस. 237 पी	निजी	अकृषिक	0.0101	मोहन लाल जना पिता खगेन्द्र व अन्य निज
				आर.एस. 215 पी	निजी	कृषिक	0.0263	सुषांत कुमार मैती पिता शाशंका व अन्य देउलिया
				आर.एस. 217 पी	निजी	कृषिक	0.0566	सुषांत कुमार मैती पिता शाशंका व अन्य
				आर.एस. 219 पी	निजी	कृषिक	0.0202	निर्मल कुमार मैती पिता कनाई व अन्य निज
				आर.एस. 207 पी	निजी	कृषिक	0.0080	अजीत जना पिता कृष्णापादा पंखबीला व अन्य
				आर.एस. 208 पी	निजी	अकृषिक	0.0121	मल्लिका जना पत्नी कृष्णापादा देउलिया व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस. 256 पी	निजी	अकृषिक	0.1052	सविन्द्र घाटा पिता कालीपदा व अन्य
				आर.एस. 257 पी	निजी	अकृषिक	0.0081	शेख अब्दुल साबिद पिता अलीमुद्दीन तगारी व अन्य
				आर.एस. 240 पी	निजी	अकृषिक	0.0040	जोगेन्द्र नाथ जना पिता पद्मवती देउलिया व अन्य
				आर.एस. 241 पी	निजी	अकृषिक	0.0081	सुरेन्द्र पाजा पिता माखन कुमार व अन्य
				आर.एस. 314/1515 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.00405	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 297/1493 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0202	डब्लू और बी विभाग
				आर.एस. 257/1507 एफ	निजी	अकृषिक	0.0060	मीता रानी कर पत्नी वित्तियारजम ठाकुरपुर व अन्य
	2.समकुड़ा	(1) नरदा जे.एस.नं. 83		आर.एस. 16 पी	निजी	कृषिक	0.0142	मानु खा पिता मैसूर, निज व अन्य
				आर.एस. 17 पी	निजी	कृषिक	0.0081	तरानी चन्द साव पिता अधोर, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस. 18 पी	निजी	कृषिक	0.0121	तरानी चन्द साव पिता अधोर, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस. 24 पी	निजी	कृषिक	0.0283	गणेश चन्द दत्ता पिता कुमाधर, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस. 27पी	निजी	कृषिक	0.0121	सुदयन साव पिता कालीपदा, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस. 28 पी	निजी	कृषिक	0.0142	अली हुसैन पिता मोस्ला बक्स, निज और अन्य
				आर.एस.29 पी	निजी	कृषिक	0.0020	अचना साव पत्नी शैलेश्वरी, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस.30 पी	निजी	कृषिक	0.0081	वरुण कुमार मंडल पिता त्रिसोवन, निज और अन्य
				आर.एस.31 पी	निजी	कृषिक	0.0020	सफीना बीबी पत्नी शेख कोप्रवान, निज और अन्य
				आर.एस. 32पी	निजी	कृषिक	0.6384	मानु खा पिता मैसूर, निज और अन्य
				आर.एस. 34पी	निजी	कृषिक	0.0263	अमीना खातुनी बीबी पत्नी शेख मोह अकरिया गोविन्द नाराय और अन्य
				आर.एस. 36 पी	निजी	कृषिक	0.0101	हेमन्त कुमार प्रसन्न पिता तपन, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस. 67 पी	निजी	कृषिक	0.0202	अमित चन्द पात्रा पिता सुवन, निज
				आर.एस. 68 पी	निजी	कृषिक	0.0121	जहीरा खातुनी बीबी पत्नी शेख जावेद अली, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस. 73 पी	निजी	कृषिक	0.0243	मरुतुनी देवि पत्नी मुलिन, निज और अन्य
				आर.एस. 74 पी	निजी	कृषिक	0.0040	सुरेन्द्र कुमार प्रहलादक पिता सुरेन्द्र, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस. 75 पी	निजी	कृषिक	0.0081	सुरेन्द्र नाथ खन्ना पिता ताराचन्द, निज और अन्य
				आर.एस. 76 पी	निजी	कृषिक	0.0081	तपन बेरा पिता सुरेन्द्र, निज और अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस . 85 पी	निजी	कृषिक	0.0121	शेख अब्दूल जलील पिता जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस . 86 पी	निजी	कृषिक	0.0121	जुमामसजीदर मातोवली पिता शेख सेर अली गोपालपुर
				आर.एस . 87 पी	निजी	कृषिक	0.0121	शेख शौकत अली पिता जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस . 88 पी	निजी	कृषिक	0.0081	आयेशा खातुन पत्नी ओसमान अली, बरादा बाजार और अन्य
				आर.एस . 91 पी	निजी	कृषिक	0.0223	शेख शौकत अली पिता जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस . 92 पी	निजी	कृषिक	0.0121	जुमामसजीदर मातोवली पिता शेख सेर अली गोपालपुर
				आर.एस . 93 पी	निजी	कृषिक	0.0202	अनन्त कुमार कर पिता वशीधर, निज और अन्य
				आर.एस . 96 पी	निजी	कृषिक	0.0040	शेख अब्दूल सतार पिता शेख दीदार, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस . 97 पी	निजी	कृषिक	0.0263	शेख अब्दूल सतार पिता शेख दीदार, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस . 98 पी	निजी	कृषिक	0.0040	अनिल चन्द्र पात्रा पिता डुवन, निज
				आर.एस . 110 पी	निजी	कृषिक	0.0688	शेख शौकत अली पिता जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस . 422 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0182	आई और डब्लू डी , प.ब.
				आर.एस . 423पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0182	आई और डब्लू डी , प.ब.
				आर.एस . 424 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0202	आई और डब्लू डी , प.ब.
				आर.एस. 451 पी	निजी	कृषिक	0.0121	जुमामसजीदर मातोवली पिता शेख सेर अली गोपालपुर
				आर.एस. 452 पी	निजी	कृषिक	0.0405	अनिल चन्द्र पात्रा पिता डुवन, निज
				आर.एस. 453 पी	निजी	कृषिक	0.0243	शेख शौकत अली पिता जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस . 454 पी	निजी	कृषिक	0.0040	हरेकृष्ण पटनायक पिता अनंत, महतपुरव अन्य
				आर.एस. 455 पी	निजी	अकृषिक	0.0223	सुधीर चन्द साव पिता प्राणकृष्ण, महतपुर और अन्य
				आर.एस. 456 पी	निजी	कृषिक	0.0405	स्नेहलता बेरा पत्नी सुरेन्द्र, निज और अन्य
				आर.एस. 458 पी	निजी	कृषिक	0.0485	लक्ष्मीकांत दास पिता चण्डी, महतपुर और अन्य
				आर.एस. 459 पी	निजी	कृषिक	0.0202	सुदर्शन दास पिता गोविन्द, निज और अन्य
				आर.एस. 460 पी	निजी	कृषिक	0.0040	जुमामसजीदर मातोवली पिता शेख सेर अली गोपालपुर
				आर.एस. 461 पी	निजी	कृषिक	0.0121	शादय कर पिता श्रीधर, निज
				आर.एस. 462 पी	निजी	कृषिक	0.0384	तनमोय कर पिता अशोक कुमार, निज और अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस. 463 पी	निजी	कृषिक	0.0445	सुवल चन्द बेरा पिता धरानीधर, निज और अन्य
				आर.एस. 471 पी	निजी	कृषिक	0.0405	हरिषकेष पटनायक पिता अनन्ता, महतपुर और अन्य
				आर.एस. 472 पी	निजी	कृषिक	0.0162	रंजीत कुमार दास पिता हारालाल, निज
				आर.एस. 538 पी	निजी	कृषिक	0.0283	शेख शौकत अली पिता जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर और अन्धा
				आर.एस. 539 पी	निजी	कृषिक	0.0121	निरमालेन्दु मंडल पिता जोगन्ध्र नाथ, निज और अन्य
				आर.एस. 540 पी	निजी	कृषिक	0.0162	नितई चन्द्र कार पिता श्रीधर, निज
				आर.एस. 544 पी	निजी	कृषिक	0.0142	फनीन्द्र नाथ हजारी पिता मानीकलाल, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस. 545 पी	निजी	कृषिक	0.0101	शेख अब्दुल जलील पिता शेख जोहाद अली, दक्षिण गोपालपुर
				आर.एस. 548 पी	निजी	कृषिक	0.0020	सुवल चन्द बेरा पिता धरानीधर, निज और अन्य
				आर.एस. 549 पी	निजी	कृषिक	0.0081	सुवल चन्द बेरा पिता धरानीधर, निज और अन्य
				आर.एस. 550 पी	निजी	कृषिक	0.0121	अनूप कुमार दास पिता रामकृष्ण, निज और अन्य
				आर.एस. 551 पी	निजी	कृषिक	0.0283	हरेकृष्ण पटनायक पिता परमेस्वर, निज
				आर.एस. 555 पी	निजी	कृषिक	0.0162	सीताराम दास पिता रतन, महतपुर और अन्य
				आर.एस. 556 पी	निजी	कृषिक	0.0121	सुवल चन्द बेरा पिता धरानीधर, निज व अन्य
				आर.एस. 557 पी	निजी	कृषिक	0.0081	एलेमा बीबी पत्नी जाबार अली, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस. 560 पी	निजी	कृषिक	0.0040	शेख शिराजुल अली पिता अबुल हुसैन, दक्षिण गोपालपुर व अन्य
				आर.एस. 570 पी	निजी	कृषिक	0.0121	शमरेन्द्र कोतल पिता संतोष, दक्षिण गोपालपुर और अन्य
				आर.एस. 1007 पी	निजी	कृषिक	0.0081	अजीत मैत्री पिता बिनोद, निज व अन्य
				आर.एस. 1010 पी	निजी	कृषिक	0.0121	सतीष सिंह पिता जितेन्द्र, प्रतापपुर व अन्य
				आर.एस. 1011 पी	निजी	कृषिक	0.0061	सचिपति जना पिता अयोध्या कोलाघाट
				आर.एस. 1012 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	श्रीती सरकार जना पिता प्रताप शंकर, मधुसुदन व अन्य
				आर.एस. 1013 पी	निजी	कृषिक	0.0040	सुरेन्द्र नाथ मैत्री पिता महेन्द्र, मधुसुदन व अन्य
				आर.एस. 1014 पी	निजी	कृषिक	0.0121	अरूप कुमार समान्ता पिता बिरेन्द्र, कनकपुर
				आर.एस. 1015 पी	निजी	कृषिक	0.0142	सचिपति जना पिता अयोध्या कोलाघाट
				आर.एस. 1017 पी	निजी	कृषिक	0.0202	श्रीती सरकार जना पिता प्रताप शंकर, मधुसुदन व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस. 1018 पी	निजी	कृषिक	0.0121	सुवल चन्द बेरा पिता गुनाधर, निज और अन्य
				आर.एस. 1021/2358 पी	निजी	कृषिक	0.0020	धिरेंद्र नाथ समान्ता पिता अतुल, निज और अन्य
				आर.एस. 1022/2359 पी	निजी	कृषिक	0.0202	फनीमृषण सेनगुप्ता पिता नालिनी, निज और अन्य
			(2) उत्तर मेचाग्राम जे.एल.नं. 67	आर.एस. 3140 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.4860	आई एवम डब्लू डी प बं
			(3) दक्षिण मेचाग्राम जे.एल.नं. 74	आर.एस. 706 एफ	निजी	अकृषिक	0.0121	शहादेव हाजरा पिता हरिपदा हाजरा, निज और अन्य
				आर.एस. 707 एफ	निजी	अकृषिक	0.0121	हरिपदा हाजरा पिता गोपाल हाजरा, निज
				आर.एस. 708 पी	निजी	कृषिक	0.0121	हरिपदा हाजरा पिता गोपाल हाजरा, निज
				आर.एस. 709 पी	निजी	कृषिक	0.0081	शहादेव हाजरा पिता हरिपदा हाजरा, निज और अन्य
				आर.एस. 710 पी	निजी	कृषिक	0.0162	शहादेव हाजरा पिता हरिपदा हाजरा, निज और अन्य
				आर.एस. 718 पी	निजी	अकृषिक	0.0202	गौरी बाला बेरा पत्नी अमूल्या बेरा, निज
				आर.एस. 719 पी	निजी	अकृषिक	0.0283	गौरी बाला बेरा पत्नी अमूल्या बेरा, निज
				आर.एस. 720 पी	निजी	अकृषिक	0.0344	नकुल बेरा पिता अमूल्या बेरा, निज
				आर.एस. 721 पी	निजी	अकृषिक	0.0202	हरिपदा हाजरा पिता गोपाल हाजरा, निज
				आर.एस. 722 पी	निजी	अकृषिक	0.0020	गौरी बाला बेरा पत्नी अमूल बेरा, निज
				आर.एस. 724 पी	निजी	कृषिक	0.0020	कृष्ण प्रसाद मंडल पिता बाबूलाल मंडल, निज और अन्य
				आर.एस. 725 पी	निजी	अकृषिक	0.0445	सुखदेव मंडल पिता अनंत कुमार, निज और अन्य
				आर.एस. 726 पी	निजी	अकृषिक	0.0202	कृष्ण प्रसाद मंडल पिता बाबूलाल मंडल, निज और अन्य
				आर.एस. 730 पी	निजी	अकृषिक	0.0263	कृष्ण प्रसाद मंडल पिता बाबूलाल मंडल, निज और अन्य
				आर.एस. 731 पी	निजी	कृषिक	0.0303	कृष्ण प्रसाद मंडल पिता बाबूलाल मंडल, निज और अन्य
				आर.एस. 732 पी	निजी	कृषिक	0.0141	राधानाथ दास पिता गोपाल दास, निज
				आर.एस. 733 पी	निजी	अकृषिक	0.0020	राधानाथ दास पिता गोपाल दास, निज
				आर.एस. 960 पी	निजी	अकृषिक	0.0020	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज
				आर.एस. 966 पी	निजी	अकृषिक	0.0020	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज
				आर.एस. 967 पी	निजी	अकृषिक	0.0121	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस. 968 पी	निजी	कृषिक	0.0101	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज पांसकुरा ऑटो मोबाइलस
				आर.एस. 970 पी	निजी	कृषिक	0.0121	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज पांसकुरा ऑटो मोबाइलस
				आर.एस. 971 पी	निजी	कृषिक	0.0607	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज पांसकुरा ऑटो मोबाइलस
				आर.एस. 972 एफ	निजी	कृषिक	0.0081	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज पांसकुरा ऑटो मोबाइलस
				आर.एस. 977 एफ	निजी	अकृषिक	0.0081	समीर कुमार दे पिता गौर गोपाल निज
				आर.एस. 978 एफ	निजी	कृषिक	0.0040	अनंत मंडल पिता कुश्वाहाज मंडल, निज और अन्य
				आर.एस. 983 पी	निजी	अकृषिक	0.0141	शक्ति पादा बेरा पिता हरिष, उत्तर मेघाराम और अन्य
				आर.एस. 986 पी	निजी	अकृषिक	0.0344	शक्ति पादा बेरा पिता हरिष, उत्तर मेघाराम और अन्य
				आर.एस. 987 पी	निजी	अकृषिक	0.0202	निरंजन राजपंडित पिता कमलकांत मलिदा और अन्य
				आर.एस. 990 पी	निजी	कृषिक	0.0121	गीतारानी दास पत्नी कमल, उत्तर मेघाराम और अन्य
				आर.एस. 991 पी	निजी	कृषिक	0.0121	गीतारानी दास पत्नी कमल, उत्तर मेघाराम और अन्य
				आर.एस. 993 पी	निजी	कृषिक	0.0101	गीतारानी दास पत्नी कमल, उत्तर मेघाराम और अन्य
				आर.एस. 998 पी	निजी	कृषिक	0.0101	गौर हरि गिरि पिता बनेष्वर, धनंजयपुर
				आर.एस. 997 पी	निजी	कृषिक	0.0060	गौर हरि गिरि पिता बनेष्वर, धनंजयपुर
				आर.एस. 918 / 2254 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0182	पी डब्लू डी, प.ब
				आर.एस. 918 / 2255 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0202	पी डब्लू डी, प.ब
				आर.एस. 918 / 2256 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0243	पी डब्लू डी, प.ब
				आर.एस. 1004 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.8499	पी डब्लू डी, प.ब
				आर.एस. 1010 पी	निजी	कृषिक	0.0040	पुरना चन्द समान्ता पिता रजनी समान्ता निज
				आर.एस. 1041 पी	निजी	अकृषिक	0.0081	कन्हाई अदित्या पिता अरुल अदित्या निज व अन्य
				आर.एस. 1012 पी	निजी	कृषिक	0.0081	अतानु सेन पिता चांदी असबारीबंघ देवरा पश्चिम भिदनापुर व अन्य
				आर.एस. 1015 पी	निजी	कृषिक	0.0081	रामपादा साव पिता कुज बिहारी निज व अन्य
				आर.एस. 1018 पी	निजी	कृषिक	0.0081	मिहिर कुमार समान्ता पिता गोश्ता बिहारी निज व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस 1019पी.	निजी	कृषिक	0.0162	सविता रानी जना पत्नी मधुसुदन रविदासपुर थाना दासपुर पश्चिम मिदनापुर व अन्य
				आर.एस 1019 / 2259 पी.	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.1983	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1020पी.	निजी	अकृषिक	0.0243	कार्तिक चन्द कर पिता रमेन्द्र निज व अन्य
				आर.एस1021 एफ.	निजी	कृषिक	0.0040	कृष्णा प्रसाद मंडल पिता बाबूलाल मंडल निज व अन्य
				आर.एस 1022 पी.	त्रिजी	कृषिक	0.0243	विकास जना पिता बिजय कृष्ण जसोरा व अन्य
				आर.एस 1033 पी.	निजी	कृषिक	0.0263	गोविन्द डुनिया पिता जगननाथ डुनिया थाना डेवरा व अन्य
				आर.एस 1034 पी.	निजी	कृषिक	0.0040	सुदाम सेन पिता रखाल सेन निज
				आर.एस 1035 पी.	निजी	अकृषिक	0.0060	दीलीप कुमार मन्ना पिता मधुसुदन बालिश्वर व अन्य
				आर.एस 1036 पी.	निजी	कृषिक	0.0202	दीलीप कुमार मन्ना पिता मधुसुदन बालिश्वर व अन्य
				आर.एस 1037 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0243	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1038 एफ	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0243	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1039 एफ	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0445	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1040 पी	निजी	अकृषिक	0.0020	संतोष मंडल पिता पिताम्बर मंडल निज
				आर.एस 1041 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0648	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1042 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0850	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1042 /2105 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0060	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1059 पी	निजी	कृषिक	0.0020	संतोष मंडल पिता केदार नाथ मंडल निज
				आर.एस 1062 पी	निजी	कृषिक	0.0202	रामपदा शंकी पिता सुरेन्द्र शंकी निज व अन्य
				आर.एस 1063पी	निजी	अकृषिक	0.0060	संतोष मंडल पिता केदारनाथ मंडल निज
				आर.एस 1121पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0243	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1122 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0081	पी डब्लू डी , प.ब
				आर.एस 1118 /2257 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.2631	आई और डब्लू डी , प.ब
			(4) नेकरा पश्चिम जे.एल.नं. 98	आर.एस 746 पी	निजी	कृषिक	0.1296	शेख मो० खोज अली पिता जफर अली निज व अन्य
				आर.एस 748 पी	निजी	कृषिक	0.0303	श्री श्री हरि जेउ ठाकुर निज सुवल चन्द बेरा पिता राखल चन्द व अन्य
				आर.एस 749 पी	निजी	कृषिक	0.0303	चंदी चरण बेरा पिता रंगालाल नेकरा पश्चिम व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस 751पी	निजी	अकृषिक	0.0769	शेख मो० खोज अली पिता जफर अली निज व अन्य
				आर.एस 752पी	निजी	अकृषिक	0.0890	शेख मो० खोज अली पिता जफर अली निज व अन्य
				आर.एस 761पी	निजी	कृषिक	0.0162	शेख मो० खोज अली पिता जफर अली निज व अन्य
				आर.एस 762पी	निजी	कृषिक	0.0162	शेख मो० खोज अली पिता जफर अली निज व अन्य
				आर.एस 763पी	निजी	कृषिक	0.0121	गौर हरि मन्ना पिता बिपिन निज व अन्य
				आर.एस 766 पी	निजी	कृषिक	0.0263	गौर हरि मन्ना पिता बिपिन निज व अन्य
				आर.एस 772 पी	निजी	कृषिक	0.0060	गौर हरि मन्ना पिता बिपिन निज व अन्य
				आर.एस 773 पी	निजी	कृषिक	0.0040	गौर हरि मन्ना पिता बिपिन निज व अन्य
			(5)जयकृष्णापुर जे.एल.नं. 97	आर.एस 88 पी	निजी	कृषिक	0.0081	अनिल कुमार नंदी पिता ललित नंदी निज व अन्य
				आर.एस 89 पी	निजी	कृषिक	0.0081	मदीप कुमार बेरा पिता नुकूल पश्चिम नेकरा व अन्य
				आर.एस 94पी	निजी	कृषिक	0.0324	जालु शेख पिता दशीउदडीन निज व अन्य
				आर.एस 95 पी	निजी	कृषिक	0.0243	शतेष्वर जना पिता बाबूलाल जना पश्चिम नेकरा
				आर.एस 105 पी	निजी	अकृषिक	0.0081	अशोक कुमार संमान्ता पिता सतीष रानीयारा व अन्य
				आर.एस 106 पी	निजी	कृषिक	0.0202	शेख एषान अली पिता शेख आमेद अली निज
				आर.एस 107 पी	निजी	कृषिक	0.0141	शतव्रता मैती पिता देवव्रता निज
				आर.एस 109 पी	निजी	कृषिक	0.0222	मेहर जान बीबी पत्नी कासेम अली पश्चिम नेकरा व अन्य
				आर.एस 110 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	0.0040	कॉलेक्टर प ब
				आर.एस 111 पी	निजी	कृषिक	0.0162	देवाप्रसाद मैती पिता जितेन्द्र मोहन मैती निज व अन्य
				आर.एस 112 पी	निजी	कृषिक	0.0182	निरंजन कुमार मैती पित्त मोतीलाल मैती निज
				आर.एस 113 पी	निजी	कृषिक	0.0364	अशोक मैती पित्त पुलीन मैती निज व अन्य
				आर.एस 116 पी	निजी	कृषिक	0.0364	बिजय कृष्णा पॉल पित्त राजेन पॉल धरमपुर
				आर.एस 107/1091 पी	निजी	कृषिक	0.0263	जानहबी बाला राना पत्नी अनिल राना बालीचक व अन्य
			(6)कनकपुरा जे.एल.नं. 82	आर.एस 22पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0607	कॉलेक्टर प ब
				आर.एस 25 पी	निजी	कृषिक	0.0607	हरेंद्र नाथ सामन्ता पित्त निबाराण चन्द निज व अन्य
				आर.एस 28 पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0020	कॉलेक्टर प ब

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				आर.एस 31 पी	निजी	कृषिक	0.0445	हरेन्द्र नाथ सामन्ता पित्त निवारान चन्द निज व अन्य
				आर.एस 33 पी	निजी	कृषिक	0.0769	अस्तिव जना पित्त प्रमात जना कनकपुरा व अन्य
				आर.एस 35पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0141	कॉलेक्टर प ब
				आर.एस 36पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0162	कॉलेक्टर प ब
				आर.एस 37पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0243	कॉलेक्टर प ब
				आर.एस 40 पी	निजी	कृषिक	0.0567	सुसान्ता मैती पित्त प्रदीप निज व अन्य
				आर.एस 41 पी	निजी	कृषिक	0.0202	अमिताम जना पित्त प्रमात निज
				आर.एस 41/2532 पी	निजी	कृषिक	0.0182	अजीत सामन्ता पित्त सुरेन्द्र निज व अन्य
				आर.एस 41/2603 पी	प.ब. सरकार	कृषिक	0.0972	कॉलेक्टर प ब
				आर.एस 64 पी	निजी	कृषिक	0.0202	नालिनी कात काथल पित्त पूरन चन्द सौरावारिया व अन्य
				आर.एस 65पी	निजी	कृषिक	0.0162	राजिया खातुन पत्नी जाकिर रहमान खान निज व अन्य
			(7)महतपुर जे.एल.नं. 66	आर.एस 1525पी	निजी	कृषिक	0.0202	वाषीनाथ साई पित्त कुषाघाज निज व अन्य

[फा. सं. भारराप्रा/पीआईयू-कोल/पीडी/139-बी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2011

S.O. 1923(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2083(E), dated the 26th August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the notification for building (widening/six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 6, on the stretch of land from km. 73.000 to km. 98.350 (Dankuni-Kharagpur Section) in District Purba Medinipur in the State of West Bengal;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Ananda Bazar Patrika", both dated the 15th November, 2010, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 73.00 to Km. 98.35 (Dankuni-Kharagpur Section) of the National Highway No. 6 in the State of West Bengal

P=Part, F=Full

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey / Dag. number	Type of land	Nature of land	Area (In hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Purba Medinipur	1. Kolaghat	(1) Uttar Jianda (J.L.No. 235)	RS 1436 (P)	Private	Non-Agri	0.0121	Hrisikesh Samanta S/O Satish of Niz & Others
				RS 1437 (P)	Private	Non-Agri	0.0121	Kamalendu Samanta S/O Sripati of Niz & Others
				RS 1571 (P)	Private	Non-Agri	0.0040	Osman-Ali S/O Abdul Gofur of Siddha & Others
				RS 1572 (P)	Private	Agri	0.0222	Mosamat Kulsam Bibi W/O Sk. Based Ali of Parik & Others
				RS 1574 (P)	Private	Non-Agri	0.0121	Kamalendu Samanta S/O Sripati of Niz & Others
				RS 1584 / 2032 (P)	Private	Agri	0.0143	Kamalendu Samanta S/O Sripati of Niz & Others
			(2) Babua (J.L.No. 290)	RS 64 (P)	Private	Agri	0.0486	Kamala Bala Doloi W/o Bijoy Krishna Of Niz & Others
				RS 65 (P)	Private	Agri	0.0486	Narayan Doloi S/O Kochi of Kola & Others
				RS 135 (P)	Private	Agri	0.1052	Panchanan Maitty S/O Baikuntha of Niz & Others
				RS 140 (P)	Private	Agri	0.0040	Narayan Doloi S/O Kochi of Kola & Others
				RS 144 (P)	Govt.	Non-Agri	0.3399	P. W. Department of Niz
				RS 141 / 351 (P)	Private	Agri	0.0850	Krishnachandra Paul S/O Nitai of Niz
				RS 141 / 352 (P)	Private	Agri	0.0364	Sayad Shumia S/O Manjour of Niz
			(3) Padampur (J.L.No. 233)	RS 13 (P)	Private	Agri	0.0162	Balai Ch. Manne S/O Indranarayan of Amirchak & Others
				RS 14 (P)	Private	Agri	0.0324	Ras Bikari Ghara S/O Amer of Niz & Others
			(4) Baranabar (J.L.No. 290)	RS: 334 (p)	Private	Agri	0.0263	Dakshin Gantait S/O Ratanmali of Baranar Nankar & Others
				RS:278 (p)	Private	Agri	0.0081	Hari Sonapat S/O Rank of Niz & Others

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 336 / 953 (p)	Private	Agri	0.0142	Hari Senapati S/O Rasik of Niz
				RS 336 (p)	Private	Agri	0.0162	Ganesh Ch. Manna S/O Nabakumar of niz & Others
				RS 339 / 956 (p)	Private	Non-Agri	0.0182	Susanta Maity S/O Tarakinkar of Niz & Others
				RS 339 (p)	Private	Non-Agri	0.0405	Susanta Maity S/O Tarakinkar of Niz & Others
				RS 342 (p)	Govt.	Non-Agri	0.0101	I & W Deptt.
				RS 343 (p)	Govt.	Non-Agri	0.0101	I & W Deptt.
				RS 344 (p)	Govt.	Non-Agri	0.0081	I & W Deptt.
				RS 370 (p)	Govt.	Non-Agri	0.0040	I & W Deptt.
				RS 341 (p)	Private	Non-Agri	0.0020	Maniklal Ghoroi S/O Motilal of Niz & Others
			(5) Pyarit (J.L.No. 299)	RS 755 (P)	Govt.	Non-Agri	0.7021	I & W Deptt. of Niz
				RS 748 (P)	Private	Non-Agri	0.0688	Uday Ch. Kauri S/O Nitai fo Niz & Others
				RS 737 (P)	Private	Non-Agri	0.0060	Gourhari Kauri S/O Haripada of Niz & Others
				RS 739 (P)	Private	Non-Agri	0.0081	Charan Ghosh S/O Rajani of Chakhari & Others
				RS 732 (P)	Private	Non-Agri	0.0101	Fakir Gon S/O Sanyasi of Hatipota & Others
				RS 722 (P)	Private	Agri	0.0060	Smt. Renuka Pramanik W/O Bhabanisankar of Pulsita
				RS 723 (P)	Private	Agri	0.0060	Sudhir Ch. Gon S/O Krittibas of Niz
				RS 731 (P)	Private	Agri	0.0081	Bhabanisankar Pramanik S/O Khitis Ch. Of Pulsita
				RS 748 / 1247 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0101	Govt. of West Bengal
			(6) Siddha (J.L.No. 227)	LR 1623 (P)	Private	Non-Agri	0.0061	Sk. Amiruddin S/O Kelimuddin of Niz & Others
				LR 1621 (P)	Private	Agri	0.0020	Siddha Jame Masjid Parichalan of Committee of Siddha
			(7) Mihitkri (J.L.No. 300)	RS 315 / 1498 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0850	W & B Deptt.
				RS 314 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0405	W & B Deptt.
				RS 313 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0121	W & B Deptt.
				RS 312 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0121	W & B Deptt.
				RS 311 (P)	Govt.	Non-Agri	0.2145	W & B Deptt.
				RS 310 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0162	W & B Deptt.
				RS 309 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0243	W & B Deptt.
				RS 308 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0283	W & B Deptt.
				RS 307 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0081	W & B Deptt.
				RS 306 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0081	W & B Deptt.
				RS 305 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0081	W & B Deptt.
				RS 304 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0121	W & B Deptt.
				RS 303 (F)	Private	Non-Agri	0.0162	Santosh(Dulal Ch.)Maity S/o Sarath of Niz & Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 302 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0081	W & B Deptt.
				RS 301 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0081	W & B Deptt.
				RS 300 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0121	W & B Deptt.
				RS 299(F)	Govt.	Non-Agri	0.0121	W & B Deptt.
				RS 298 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0121	W & B Deptt.
				RS 297 (F)	Private	Non-Agri	0.0081	Sayed Ebar Ali S/o Mazahar of Bar Payrit & Others
				RS 297 / 1605 (F)	Govt.	Non-Agri	0.00400	W & B Deptt.
				RS 297 / 1607 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0081	W & B Deptt.
				RS 329 (P)	Govt.	Non-Agri	0.2914	I & W Deptt.
				RS 289 (P)	Private	Agri	0.0688	Santanu Maity S/o Dulal Ch. Of Deulia & Others
				RS 291 (P)	Private	Non-Agri	0.0445	W & B Deptt.
				RS 279 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0162	Govt. of West Bengal
				RS 278 (P)	Private	Non-Agri	0.0567	Satyajit Kandar, S/o. Bhabataran of Pulshita & others
				RS 277 (P)	Private	Agri	0.0081	Muktar Ali Molla S/o Sadar Ali Molla of Deulia & Others
				RS 274 (P)	Private	Agri	0.0587	Debandra Bag S/o Adhar of Niz
				RS 273 (P)	Private	Agri	0.0567	Murari Mohan Maity S/o Bhuban & Others of Niz
				RS 272 (P)	Private	Agri	0.0243	Achutnanda Jana, S/o. Charu of Niz & other
				RS 271 (P)	Private	Agri	0.0101	Ranuka Bala Mathura W/o Bijoy & Others of Niz
				RS 269 (P)	Private	Non-Agri	0.0243	Arati Nayak W/o Joydeb of Niz & Others
				RS 258 (P)	Private	Non-Agri	0.0243	District Board, Purba Medinipur
				RS 237 (P)	Private	Non-Agri	0.0101	Mohan Lal Jana S/o Khagendra & Others of Niz
				RS 215 (P)	Private	Agri	0.0263	Susanta Kr. Maity S/o Sasanka & others of Deulia
				RS 217 (P)	Private	Agri	0.0566	Susanta Kr. Maity S/o Sasanka & others of Niz
				RS 219 (P)	Private	Agri	0.0202	Nirmal Kr. Maity S/o Kanai & Others of Niz
				RS 207 (P)	Private	Agri	0.0060	Ajit Jana S/o Krishnapada of panshila & Others
				RS 208 (P)	Private	Non-Agri	0.0121	Mallika Jana, W/o. Krishnapada of Deulia & others
				RS 256 (P)	Private	Non-Agri	0.1052	Rabindra Ghata S/o Kalipada & Others
				RS 257 (P)	Private	Non-Agri	0.0081	Sk. Abdul Rasid S/o Alimuddin of Tagari & Others
				RS 240 (P)	Private	Non-Agri	0.0040	Jogendra Nath Jana, s/o. Pashupati of Deulia & others
				RS 241 (P)	Private	Non-Agri	0.0081	Surendranath Panja, S/o. Makhan of Kushar & others
				RS 314/1515 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0040	W & B Deptt.
				RS 297/1493 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0202	W & B Deptt.
				RS 257/1507 (F)	Private	Non-Agri	0.0060	Mita Rani Kar, W/o. Chittaranjan of Thakurpukur & others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Panskura	(1) Naranda (J.L.No. 83)	RS 16(P)	Private	Agri	0.0142	Manu Kha S/O Mansur of Niz & another
				RS 17(P)	Private	Agri	0.0081	Tarani Charan Shaw S/O Aghor of Dakshin Gopalpur
				RS 18(P)	Private	Agri	0.0121	Tarani Charan Shaw S/O Aghor of Dakshin Gopalpur
				RS 24(P)	Private	Agri	0.0283	Ganesh Ch. Dutta S/O Gunadhar of Dakshin Gopalpur & another
				RS 27(P)	Private	Agri	0.0121	Sudarsan Shaw S/O Kalipada of Dakshin Gopalpur & Others
				RS 28(P)	Private	Agri	0.0142	Ali Hosen S/O Maola Box of Niz & another
				RS 29(P)	Private	Agri	0.0020	Archana Shaw W/O Gourhari of Dakshin Gopalpur & others
				RS 30(P)	Private	Agri	0.0081	Barun Kr. Mondal S/O Trilochn of Niz & Others
				RS 31(P)	Private	Agri	0.0020	Sakina Bibi W/O Sk. Korban of Niz
				RS 32(P)	Private	Agri	0.0384	Manu Kha S/O Mansur of Niz & others
				RS 34(P)	Private	Agri	0.0263	Aklima Khatun Bibi W/O Sk. Md. Jakaria of Gobindanagar & another
				RS 36(P)	Private	Agri	0.0101	Hemanta Kr. Rakshit S/O Tapan of Dakshin Gopalpur & another
				RS 67(P)	Private	Agri	0.0202	Anil Ch. Patra S/O Bhuban of Niz
				RS 68(P)	Private	Agri	0.0121	Jahera Khatun Bibi W/O Sk. Javed Ali of Dakshin Gopalpur
				RS 73(P)	Private	Agri	0.0243	Parul Bhowmik W/O Pulin of Niz & another
				RS 74 (P)	Private	Agri	0.0040	Shyamsundar Pattanayek S/O Harekrishna of Dakshin Gopalpur
				RS 75(P)	Private	Agri	0.0081	Surendra Nath Khanra S/O Tarachand of Niz & Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 76(P)	Private	Agri	0.0061	Tapan Bera S/O surendra of Niz & another
				RS 85(P)	Private	Agri	0.0121	Sk Abdul Jalil S/O Johad Ali of Dakshin Gopalpur
				RS 86(P)	Private	Agri	0.0121	Jummamasjider Matowali S/O Sk. Ser Ali of Gopalpur
				RS 87(P)	Private	Agri	0.0121	Sk Saokat Ali S/O Johad Ali of Dakshin Gopalpur & another
				RS 88(P)	Private	Agri	0.0081	Ayesha khatun W/O Osman Ali of Barada Bazar & another
				RS 91(P)	Private	Agri	0.0223	Sk Saokat Ali S/O Johad Ali of Dakshin Gopalpur & another
				RS 92(P)	Private	Agri	0.0121	Jummamasjider Matowali S/O Sk. Ser Ali of Gopalpur
				RS 93(P)	Private	Agri	0.0202	Ananta Kr Kar S/O Banshidhar of Niz & another
				RS 96(P)	Private	Agri	0.0040	Sk. Abdul Sattar S/O SK. Didar of Dakshin Gopalpur
				RS 97(P)	Private	Agri	0.0263	Sk. Abdul Sattar S/O SK. Didar of Dakshin Gopalpur
				RS 98(P)	Private	Agri	0.0040	Anil Ch. Patra S/O Bhuban of Niz
				RS 110(P)	Private	Agri	0.0688	Sk Saokat Ali S/O Johad Ali of Dakshin Gopalpur & Others
				RS 422(P)	Govt.	Non-Agri	0.0182	I & W.D. of W.B.
				RS 423(P)	Govt.	Non-Agri	0.0182	I & W.D. of W.B.
				RS 424(P)	Govt.	Non-Agri	0.0202	I & W.D. of W.B.
				RS 451(P)	Private	Agri	0.0121	Jummamasjider Matowali S/O Sk. Ser Ali of Gopalpur
				RS 452(P)	Private	Agri	0.0405	Anil Ch. Patra S/O Bhuban of Niz
				RS 453(P)	Private	Agri	0.0243	Sk Saokat Ali S/O Johad Ali of Dakshin Gopalpur & Others
				RS 454(P)	Private	Agri	0.0040	Hrishikesh pattanayek S/O Ananta of Mahatpur & Others
				RS 455(P)	Private	Non-Agri	0.0223	Sudhir Ch. Shaw S/O prankrishna of Mahatpur & Others
				RS 456(P)	Private	Agri	0.0405	Snehalata Bera W/O Surendra of Niz & Others

1	2	3	4	5	6	7	8.	9
				RS 458(P)	Private	Agri	0.0485	Lakshmi Kar ta Das S/O Chandri of Mahatpur & Others
				RS 459(P)	Private	Agri	0.0202	Sudarshan Das S/O Gobinda of Niz & Others
				RS 460(P)	Private	Agri	0.0040	Jummamasjider Matowali S/O Sk. Ser Ali of Gopalpur
				RS 461(P)	Private	Agri	0.0121	Saday Kar S/O Snidhar of Niz
				RS 452(P)	Private	Agri	0.0384	Tanmay Kar S/O Ashoke Kumar of Niz & another
				RS 463(P)	Private	Agri	0.0445	Subal Ch. Bera S/O Dharanidhar of Niz & Others
				RS 471(P)	Private	Agri	0.0405	Hrshikesh pattanayek S/O Ananta of Mahatpur & Others
				RS 472(P)	Private	Agri	0.0162	Ranjit Kr. Das S/O Haralai of Niz
				RS 538(P)	Private	Agri	0.0263	Sk Saokat Ali S/O Johad Ali of Dakshin Gopalpur & another
				RS 539(P)	Private	Agri	0.0121	Nirmalendu Mondal S/O Jogendranath of Niz & another
				RS 540(P)	Private	Agri	0.0162	Nitai Ch. Kar S/O Snidhar of Niz
				RS 544(P)	Private	Agri	0.0142	Phanindra Nath Hazari S/O Maniklal of Dakshin Gopalpur
				RS 545(P)	Private	Agri	0.0101	Sk. Abdul Jalil S/O Sk Johad Ali of Dakshin Gopalpur
				RS 548(P)	Private	Agri	0.0020	Subal ch. Bera S/O Dharanidhar of Niz & another
				RS 549(P)	Private	Agri	0.0081	Subal ch. Bera S/O Dharanidhar of Niz & Others
				RS 550(P)	Private	Agri	0.0121	Anup Kr. Das S/O Ramkrishna of Niz & Others
				RS 551(P)	Private	Agri	0.0283	Harekrishna Pattanayek S/O Parameswar of Niz
				RS 555(P)	Private	Agri	0.0162	Sitaram Das S/O Ratan of Mahatpur & Others
				RS 556(P)	Private	Agri	0.0121	Subal Ch. Bera S/O Dharanidhar of Niz & Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 557(P)	Private	Agri	0.0081	Alema Bibi W/O Jabbar Ali of Dakshin Gopalpur & Others
				RS 560(P)	Private	Agri	0.0040	Sk. Serajul Ali S/O Abul Hossen of Dakshin Gopalpur & another
				RS 570(P)	Private	Agri	0.0121	Samarendra Kotal S/O Santosh of Dakshin Gopalpur & Others
				RS 1007(P)	Private	Agri	0.0081	Ajit Maity S/O Binod of Niz & Others
				RS 1010(P)	Private	Agri	0.0121	Satish Sing S/O Jatindra of Pratappur
				RS 1011(P)	Private	Agri	0.0061	Sachipati Jana S/O Ayodhya of Kolaghat
				RS 1012(P)	Govt.	Non-Agri	0.0081	Priti Sankar Jana S/O Pratap Sankar of Madhusudanbar
				RS 1013(P)	Private	Agri	0.0040	Surendranath Maity S/O Mahendra of Madhusudanbar & Others
				RS 1014(P)	Private	Agri	0.0121	Anup Kr. Samanta S/O Birendra of Kanakpur
				RS 1015(P)	Private	Agri	0.0142	Sachipati Jana S/O Ayodhya of Kolaghat
				RS 1017(P)	Private	Agri	0.0202	Priti Sankar Jana S/O Pratap Sankar of Madhusudanbar
				RS 1018(P)	Private	Agri	0.0121	Subal Ch. Bari S/O Gunadhar of Niz & Others
				RS 1021 / 2358(P)	Private	Agri	0.0020	Dhirendra Nath Samanta S/O Atul of Niz & another
				RS 1022 / 2359(P)	Private	Agri	0.0202	Phanibhusan Sengupta S/O Nalini of Niz & another
		(2) Uttar Mechagram (J.L.No. 67)		RS 3140(P)	Govt.	Non-Agri	0.4860	I & W.D. of W.B.
		(3) Dakshin Mechagram (J.L.No. 74)		RS 706(F)	Private	Non-Agri	0.0121	Sahadeb Hazra S/O Haripada Hazra of Niz & Others
				RS 707(F)	Private	Non-Agri	0.0121	Haripada Hazra S/O Gopal Hazra of Niz
				RS 708(P)	Private	Agri	0.0121	Haripada Hazra S/O Gopal Hazra of Niz
				RS 709(P)	Private	Agri	0.0081	Sahadeb Hazra S/O Haripada Hazra of Niz & Others
				RS 710(P)	Private	Agri	0.0162	Sahadeb Hazra S/O Haripada Hazra of Niz & Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 718(P)	Private	Non-Agri	0 0202	Gouri Bala Bera W/O Amulya Bera of Niz
				RS 719(P)	Private	Non-Agri	0 0283	Gouri Bala Bera W/O Amulya Bera of Niz
				RS 720(P)	Private	Non-Agri	0 0344	Nakul Bera S/O Amulya Bera of Niz
				RS 721(P)	Private	Non-Agri	0 0202	Haripada Hazra S/O Gopal Hazra of Niz
				RS 722(P)	Private	Non-Agri	0 0020	Gouri Bala Bera W/O Amulya Bera of Niz
				RS 724(P)	Private	Agri	0 0020	Krishna Prasad Mondal S/O Babulal Mondal of Niz & Others
				RS 725(P)	Private	Non-Agri	0 0445	Sukdev Mondal S/O Ananta Kr Of Niz & Others
				RS 726(P)	Private	Non-Agri	0 0202	Krishna Prasad Mondal S/O Babulal Mondal of Niz & another
				RS 730(P)	Private	Non-Agri	0 0263	Krishna Prasad Mondal S/O Babulal Mondal Of Niz & Others
				RS 731(P)	Private	Agri	0 0303	Krishna Prasad Mondal S/O Babulal Mondal Of Niz & Others
				RS 732(P)	Private	Agri	0 0141	Radhanath Das S/O Gopal Das of Niz
				RS 733(P)	Private	Non-Agri	0 0020	Radhanath Das S/O Gopal Das of Niz
				RS 960(P)	Private	Non-Agri	0 0020	Sammir Kr. Dey S/O Gour Gopal of Niz
				RS 966(P)	Private	Non-Agri	0 0020	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz
				RS 967(P)	Private	Non-Agri	0 0121	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz
				RS 968(P)	Private	Agri	0 0101	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz Panskura Auto Mobile
				RS 970 (P)	Private	Agri	0 0121	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz Panskura Auto Mobile
				RS 971 (P)	Private	Agri	0 0607	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz Panskura Auto Mobile

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 972 (F)	Private	Agri	0.0081	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz Panskura Auto Mobile & another
				RS 977 (F)	Private	Non-Agri	0.0081	Samir kumar Dey S/O Gour Gopal of Niz
				RS 978 (F)	Private	Agri	0.0040	Ananta Mondal S/O Kuswadhaj Mondal of Niz & Others
				RS 983 (P)	Private	Non-Agri	0.0141	Shakti Pada Bera S/O Harish of Uttar Mechagram & Others
				RS 986 (P)	Private	Non-Agri	0.0344	Shakti Pada Bera S/O Harish of Uttar Mechagram & Others
				RS 987 (P)	Private	Non-Agri	0.0202	Niranjan Rajpandit S/O Kamalakanta of Malida & Others
				RS 990 (P)	Private	Agri	0.0121	Gitarani Das W/O Kamal
				RS 991 (P)	Private	Agri	0.0121	Gita Rani Das W/O Kamal of Uttar Mechagram
				RS 993 (P)	Private	Agri	0.0101	Gita Rani Das W/O Kamal of Uttar Mechagram & Others
				RS 996 (P)	Private	Agri	0.0101	Gour Hari Giri S/O Banerwar of Dhananjoypur
				RS 997 (P)	Private	Agri	0.0060	Gour Hari Giri S/O Banerwar of Dhananjoypur
				RS 918/ 2254 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0182	P.W.D. of W.B.
				RS 918/ 2255 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0202	P.W.D. of W.B.
				RS 918/ 2256 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0243	P.W.D. of W.B.
				RS 1004 (P)	Govt.	Non-Agri	0.8499	P.W.D. of W.B.
				RS 1010 (P)	Private	Agri	0.0040	Purna Ch. Samanta S/O Rajani Samanta of Niz
				RS 1011 (P)	Private	Non-Agri	0.0081	Kanai Aditya S/O Atul Aditya of Niz & Others
				RS 1012 (P)	Private	Agri	0.0081	Atanu Sen S/O Chandhi of Asharibandh Debra Dist.- Paschim Medinipur & Others
				RS 1015 (P)	Private	Agri	0.0081	Rampada Shaw S/O Kunja Bihari of Niz & another
				RS 1018 (P)	Private	Agri	0.0081	Mihir Kr. Samanta S/O Gostha Bihari of Niz & Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 1019 (P)	Private	Agri	0.0162	Sabita Rani Jana W/O Madhusudan of Rabidaspur, P.S - Daspur Dist Paschim Medinipur & Others
				RS 1019/ 2259 (P)	Govt.	Non-Agri	0.1983	P.W.D. of W.B.
				RS 1020 (P)	Private	Non-Agri	0.0243	Kartik Ch Kar S/O Ramendra of Niz & Others
				RS 1021 (F)	Private	Agri	0.0040	Krishna Prasad Mondal S/O Babulal Mondal of niz & others
				RS 1022 (P)	Private	Agri	0.0243	Bikash Jana S/O Bijoy Krishna of Jasora & Others
				RS 1033 (P)	Private	Agri	0.0263	Gobinda Bhunia S/O Jagannath Bhunia of P.S. - Debra & Others
				RS 1034 (P)	Private	Agri	0.0040	Sudam Sen S/O Rakhal Sen of Niz
				RS 1035 (P)	Private	Non-Agri	0.0060	Dilip Kr. Manna S/O Madhusudan Of Baliswar & another
				RS 1036 (P)	Private	Agri	0.0202	Dilip Kr. Manna S/O Madhusudan Of Baliswar & another
				RS 1037 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0243	P.W.D. of W.B.
				RS 1038 (F)	Govt.	Non-Agri	0.0243	P.W.D. of W.B.
				RS 1039 (F)	Govt.	Agri	0.0445	P.W.D. of W.B.
				RS 1040 (P)	Private	Non-Agri	0.0020	Santosh Mondal S/O Pitambar Mondal of Niz
				RS 1041 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0648	P.W.D. of W.B.
				RS 1042 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0850	P.W.D. of W.B.
				RS 1042/ 2105 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0060	P.W.D. of W.B.
				RS 1059 (P)	Private	Agri	0.0020	Santosh Mondal S/O Kedamath Mondal of Niz
				RS 1062 (P)	Private	Agri	0.0202	Rampada Sanki S/O Surendra Sanki of Niz & anothers
				RS 1063 (P)	Private	Non-Agri	0.0060	Santosh Mondal S/O Kedamath Mondal of Niz
				RS 1121 (P)	Govt.	Agri	0.0243	P.W.D. of W.B.
				RS 1122 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0081	P.W.D. of W.B.
				RS 1118/ 2257 (P)	Govt.	Non-Agri	0.2631	I & W.D. of W.B.
			(4) Nekra Paschim (J.L.No. 98)	RS 746 (P)	Private	Agri	0.1296	Saikh Md.Khoaj Ali S/O Jafar Ali of Niz & Othetrs
				RS 748 (P)	Private	Agri	0.0303	Sri Sri Hari Jeu thakur of Niz Subal Ch. Bera S/O Rakhal ch. & Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 749 (P)	Private	Agri	0.0303	Chandi Charan Bera S/o Rangalal of Nekra Paschim & Others
				RS 751 (P)	Private	Non-Agri	0.0769	Saikh Md.Khoaj Ali S/O Jafar Ali of Niz & Others
				RS 752 (P)	Private	Non-Agri	0.0890	Saikh Md.Khoaj Ali S/O Jafar Ali of Niz & Others
				RS 761 (P)	Private	Agri	0.0162	Saikh Md.Khoaj Ali S/O Jafar Ali of Niz & Others
				RS 762 (P)	Private	Agri	0.0162	Saikh Md.Khoaj Ali S/O Jafar Ali of Niz
				RS 763 (P)	Private	Agri	0.0121	Gour Hari Mana S/O Bipin of Niz & Others
				RS 766 (P)	Private	Agri	0.0263	Gour Hari Mana S/O Bipin of Niz & Others
				RS 772 (P)	Private	Agri	0.0060	Gour Hari Mana S/O Bipin of Niz & Others
				RS 773 (P)	Private	Agri	0.0040	Gour Hari Mana S/O Bipin of Niz & Others
			(5) Jaykrishnapur (J.L.No. 97)	RS 88 (P)	Private	Agri	0.0081	Anil Kr. Nandi S/O Lalit Nandi of Niz & Others
				RS 89 (P)	Private	Agri	0.0081	Pradip Kr. Bera S/O Nukul Ch. Of Paschim Nakra & Others
				RS 94 (P)	Private	Agri	0.0324	Jalu Saikh S/O Dasiruddin of Niz & another
				RS 95 (P)	Private	Agri	0.0243	Satyaswar Jana S/O Babulal Jana Paschim Nakra
				RS 105 (P)	Private	Non-Agri	0.0081	Ashoke Kr. Samanta S/O Satish of Raniara & another
				RS 106 (P)	Private	Agri	0.0202	Saikh Ensan Ali S/O Saikh Amed Ali of Niz
				RS 107 (P)	Private	Agri	0.0141	Satyabrata Maity S/O Debabrata of Niz
				RS 109 (P)	Private	Agri	0.0222	Meher Jan Bibi W/O Kasem Ali of Paschim Nakra & another
				RS 110 (P)	Govt.	Non-Agri	0.0040	Collector of W.B.
				RS 111 (P)	Private	Agri	0.0162	Debaprasad Maity S/O Jatindra Mohan Maity of Niz & another
				RS 112 (P)	Private	Agri	0.0182	Niranjan Kr. Maity S/O Motilal Maity of Niz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RS 113 (P)	Private	Agri	0.0364	Ashoke Maity S/O Pulin maity of Niz & another
				RS 116 (P)	Private	Agri	0.0364	Bijoy Krishna Paul S/O Rajen Paul of Dharmapur
				RS 107/ 1091 (P)	Private	Agri	0.0263	Janhabi Bala Rana W/O Anil Rana of Balchak & Others
			(6) Kanakpur (J.L.No 82)	RS 22 (P)	Govt.	Agri	0.0607	Collector of W.B.
				RS 25 (P)	Private	Agri	0.0607	Harendranath Samanta S/O Nibaran Ch. Of Niz & Others
				RS 28 (P)	Govt.	Agri	0.0020	Collector of W.B.
				RS 31 (P)	Private	Agri	0.0445	Harendranath Samanta S/O Nibaran Ch. Of Niz & Others
				RS 33 (P)	Private	Agri	0.0769	Asitava Jana S/O Pravat Jana of Kanakpur & Others
				RS 35 (P)	Govt.	Agri	0.0141	Collector of W.B.
				RS 36 (P)	Govt.	Agri	0.0162	Collector of W.B.
				RS 37 (P)	Govt.	Agri	0.0243	Collector of W.B.
				RS 40 (P)	Private	Agri	0.0567	Susanta Maity S/O Pradip of Niz & Others
				RS 41 (P)	Private	Agri	0.0202	Amitava Jana S/o Pravat of Niz
				RS 41/ 2532 (P)	Private	Agri	0.0182	Ajit Samanta S/O Surendra of Niz & Others
				RS 41/ 2603 (P)	Govt.	Agri	0.0972	Collector of W.B.
				RS 64 (P)	Private	Agri	0.0202	Nalini Kanta Kathal S/O Purna Ch. Of Saoraberia & Others
				RS 65 (P)	Private	Agri	0.0162	Raja Khatun W/o Jakir Rahaman Khan of Niz & Others
			(7) Mahatpur (J.L.No.66)	RS 1525 (P)	Private	Agri	0.0202	Kasinath Sai S/O Kushadhaj of Niz & another

[F. No. NHA/PIU-KOL/PD/139-B]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.